



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 30 नवम्बर, 2023

अग्रहायण 9, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

नियुक्ति अनुभाग-4

संख्या 656/दो-4-2023-36(1)-2005 टी0सी0

लखनऊ, 30 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0-44

संविधान के अनुच्छेद 233 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उच्च न्यायालय इलाहाबाद की संस्तुतियों के अनुसार उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:-

उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (पंद्रहवां संशोधन) नियमावली, 2023

1-(1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (पंद्रहवां संशोधन) नियमावली, 2023" कही जायेगी।

संक्षिप्त नाम  
और प्रारम्भ

(2) यह नियमावली 1 जनवरी, 2020 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

परिभाषा 2—इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “नियमावली” का तात्पर्य “उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975” से है।

नियम 27 का संशोधन 3—उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 27 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

**स्तम्भ-1****विद्यमान नियम**

27—सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्ति—सेवा में सेलेक्शन ग्रेड के पदों पर (जिला न्यायाधीश के कांडर पदों के 25 प्रतिशत की सीमा तक) न्यायालय द्वारा सेवा के ऐसे सदस्यों में से, जिन्होंने कांडर में 5 वर्ष से अन्यून की निरन्तर सेवा की हो, योग्यता-सह-ज्येष्ठता के आधार पर नियुक्ति की जायेगी।

नियम 27-क का संशोधन

4—उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 27-क के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

**स्तम्भ-1****विद्यमान नियम**

27—क—अतिकाल वेतनमान में नियुक्ति—सेवा में अतिकाल वेतनमान के पदों पर (जिला न्यायाधीशों की स्वीकृत कांडर संख्या के 10 प्रतिशत की सीमा तक) न्यायालय द्वारा सेवा के ऐसे सदस्यों में से जो सेलेक्शन ग्रेड पदों के धारक हों और जिन्होंने सेलेक्शन ग्रेड जिला न्यायाधीशों के रूप में 3 वर्ष से अन्यून की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, योग्यता-सह-ज्येष्ठता के आधार पर नियुक्ति की जायेगी।

**स्तम्भ-2****एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

27—चयन श्रेणी में नियुक्ति—सेवा में चयन श्रेणी के पदों पर (जिला न्यायाधीशों के संवर्ग पदों के 35 प्रतिशत की सीमा तक) न्यायालय द्वारा सेवा के ऐसे सदस्यों में से, जिन्होंने संवर्ग में 5 वर्ष से अन्यून की निरन्तर सेवा की हो, योग्यता-सह-ज्येष्ठता के आधार पर नियुक्ति की जायेगी।

**स्तम्भ-2****एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

27—क—अतिकाल वेतनमान में नियुक्ति—सेवा में अतिकाल वेतनमान के पदों पर (जिला न्यायाधीशों की स्वीकृत संवर्ग संख्या के 15 प्रतिशत की सीमा तक) न्यायालय द्वारा सेवा के ऐसे सदस्यों में से, जो चयन श्रेणी पदों के धारक हों और जिन्होंने चयन श्रेणी जिला न्यायाधीशों के रूप में 3 वर्ष से अन्यून की निरन्तर सेवा की हो, योग्यता-सह-ज्येष्ठता के आधार पर नियुक्ति की जायेगी।

आज्ञा से,  
डॉ० देवेश चतुर्वेदी,  
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 656/Two-4-2023-36(1)-2005T.C., dated November 30, 2023:

No. 656/Two-4-2023-36(1)-2005T.C.

Dated Lucknow, November 30, 2023

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read with Article 233 of the Constitution, the Governor in accordance with the recommendations of High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975.

**THE UTTAR PRADESH, HIGHER JUDICIAL SERVICE (FIFTEENTH AMENDMENT) RULES, 2023**

Short title and  
commencement

1. (1) These rules may be called "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service (Fifteenth Amendment) Rules, 2023".

(2) These Rules shall be deemed to have come into force with effect from January 1, 2020.

2. In these Rules, unless the context otherwise requires, 'Rules' mean "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975".

Definition

3. In the Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975, for Rule 27 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

Amendment of Rule 27

COLUMN-1

*Existing rule*

**27. Appointment to the selection grade-**Appointment to the Selection grade posts (to the extent of 25% of the cadre posts of District Judges) in Service shall be made by the Court from amongst the members of the Service who have put in not less than 5 years of continuous service in the cadre on the basis of merit-cum-seniority.

COLUMN-2

*Rule as hereby substituted*

**27. Appointment to the selection grade-**Appointment to the Selection grade posts (to the extent of 35% of the cadre posts of District Judges) in Service shall be made by the Court from amongst the members of the service who have put in not less than 5 years of continuous service in the cadre on the basis of merit-cum-seniority.

4. In the Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975, for Rule 27-A set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

Amendment of Rule 27-A

COLUMN-1

*Existing rule*

**27-A. Appointment to Super Time Scale-**Appointment to Super Time Scale posts (to the extent of 10% of sanctioned cadre strength of the District Judges) in the Service shall be made by the Court from amongst the members of the service holding Selection Grade posts and who have put in not less than 3 years of continuous service as Selection Grade District Judges on the basis of merit-cum-seniority.

COLUMN-2

*Rule as hereby substituted*

**27-A. Appointment to the Super Time Scale-** Appointment to the Super Time Scale posts (to the extent of 15% of sanctioned cadre strength of the District Judges) in the Service shall be made by the Court from amongst the members of the service holding Selection Grade posts and who have put in not less than 3 years of continuous service as Selection Grade District Judges on the basis of merit-cum-seniority.

By order,  
DR. DEVESH CHATURVEDI,  
*Apar Mukhya Sachiv.*